



# उत्तराखण्ड

पुलिस उप निरीक्षक (SI)

Uttarakhand Police Recruitment Board

भाग – 2

सामान्य ज्ञान



# उत्ताराखण्ड पुलिस उप निरीक्षक (SI)

## विषय शूली

### भारतीय इतिहास

#### I. प्राचीन इतिहास

1. प्रारंभिक काल	1
2. रिनद्यु धाटी शम्यता	2
3. वैदिक शम्यता	5
4. बौद्ध धर्म एवं डैन धर्म	9
5. महाजनपद काल	11
6. मौर्य काल	13
7. मौर्योत्तर काल	15
8. गुप्त काल	16
9. गुप्तोत्तर काल	18

#### II. मध्यकालीन भारत

1. भारत पर मुर्दिलम आक्रमण	21
2. शत्रुघ्नि काल	21
3. मुगल काल	26
4. भक्ति एवं शूष्णि आनंदोलन	31
5. मराठा उद्भव	33

#### III. आधुनिक भारत का इतिहास

1. भारत में यूरोपीयन कम्पनियों का आगमन	35
2. बंगाल और अंग्रेज	37
3. मराठा शक्ति का उत्कर्ष	37
4. अंग्रेजों की भू-शाज़ख गीतियाँ	39
5. आंग्ल-मैथूर शंघर्ष	40
6. आंग्ल-सिक्ख शंघर्ष	41
7. गवर्नर जनरल	42
8. भारत के वायरशेय	44
9. 1857 की क्रांति	46

10.	धर्म एवं शमाज कुष्ठार आनंदोलन	47
11.	राष्ट्रीय आनंदोलन	49
12.	गांधी युग	53
13.	भारत में क्रान्तिकारी शंगठन	60

## भारतीय शंविधान

1.	शंविधान का विकास	62
2.	शंविधान की पृष्ठभूमि	63
3.	शंविधान के भाग	65
4.	अनुशुचियाँ	77
5.	प्रस्तावना	78
6.	शंघ	79
7.	शंसदीय समितियाँ	88
8.	न्यायपालिका	89
9.	शड्य	91

## भारतीय भूगोल

1.	भारत की स्थिति एवं विस्तार	106
2.	भारत के भौगोलिक भू-भाग	108
3.	भारत का ऊपवाह तंत्र	114
4.	डैव-विविधता एवं शंरक्षण	119
5.	भारत की मृदा	126
6.	जलवायु	127
7.	भारत में खनिज	128
8.	भारत के प्रमुख उद्योग	131
9.	भारत में परिवहन	134
10.	भारत में कृषि	138
11.	भारत की जनजातियाँ	141

## विज्ञान

❖	शामान्य विज्ञान	143
---	-----------------	-----


## कम्प्यूटर

❖	कम्प्यूटर	163
---	-----------	-----

## प्राचीन इतिहास

- इतिहास शब्द ग्रीक अथवा यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया से बना है जिसका अर्थ होता है खोज अथवा छानबीन।
- इतिहास का संबंध अतीत की उन घटनाओं से है जिनका हमारे पास लिखित एवं प्रमाणित तिथि उपलब्ध है।
- ग्रीक विद्वान् हेरोडोटस ने इतिहास की प्रथम पुस्तक “हिस्टोरिका” लिखी।
- हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है।
- इतिहास की जानने के लिए मिस्त्रोत है।
  - पुरातात्त्विक स्रोत
  - साहित्य स्रोत
  - विदेशी यात्रियों का यात्रा वृतांत

अद्ययन की दृष्टि से भारतीय इतिहास को हम मिस्त्र प्रकार बांट सकते हैं।



### पुरापाषाण काल -

- आधुनिक मानव होमो ओपिनियंश का उदय।
- मानव आग डलाना।
- इस काल में चापर - चौपिंग लंस्कृति का उदय, डी एन वाडिया ने खोज की, यह उत्तर भारतीय लंस्कृति है।
- दक्षिण भारत की लंस्कृति हैंड - एकसे लंस्कृति है इसकी खोज रॉबर्ट ब्रुस फ्रूट ने की।
- चापर-चौपिंग एवं हैंड डैन लंस्कृति (उत्तर एवं दक्षिण) मिलने वाले चौतरान (जम्मू कश्मीर) हैं।

### प्रमुख इथल -

भीम बेटका - शैला शील चित्रों के प्रशिद्ध;  
डीडवाना (राजस्थान); हथगौरा

### मध्य पाषाण काल

- इस काल को माइक्रोलिथ काल कहते हैं। छोटे - छोटे पाषाण उपकरणों के कारण।
- भारत में इस काल का जनक HCL क्लाईल।
- मानव न इस काल में शर्वपूर्वम पशु पालन करना शीखा।
- पशुपालन के प्राचीनतम शाक्य है। बांगौर (राजस्थान) एवं आदमगढ़ (MP)
- मध्य पाषाण काल का शब्द से प्राचीन इथल शराय नाहर यूपी है।

### उत्तर/नव पाषाण काल

- शर जॉन लुबाक ने नव पाषाण काल शब्द दिया।
- गार्डन चाइल्ड ने इस काल को “नव पाषाणिक कांति” कहा।
- ली मेंटियर ने उत्तर भारत में नव पाषाणिक उपकरण खोजे।
- नेविलियन फ्रेजर ने दक्षिण भारत से नव पाषाणिक उपकरण खोजे।
- मानव ने कृषि करना शीखा।
- वृहद पैमाने पर पशुपालन एवं ग्रामीण लंस्कृति के शाक्य मिले।

### प्रमुख इथल -

- मेहरगढ़ (पाक) - नव पाषाण काल का शब्द से प्राचीन इथल 8000 BC पूर्व कृषि के साथ शाक्य मिले।
- कोल्डी हवा - (यूपी) - 6000 वर्ष पूर्व चावल की खेती के शाक्य मिले।
- बृजहोम एवं गुणफकराल (J&K) बृजहोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के शाक्य भी मिले हैं।

## नोट -

प्रागऐतिहासिक काल के उनक भारत में डा. प्राइम रोज थे। जिन्होंने लिंगसुमुर (कर्णाटक) से पाषाण कालीन उपकरण खोजे थे। नव पाषाण काल में दक्षिण भारत की प्रमुख फसल तांगी थी।

## रिंदू धाटी शम्यता

### परिचय

#### हड्पा शम्यता

- चार्ल्स मेलन - 1826 ई. शबसे पहले शम्यता की ओर ध्यान आकर्षित किया।
- जॉन ब्रंटन व विलियम ब्रंटन - 1856 ई हड्पा नगर का खोर्च किया।
- कनिधम इस ओर ध्यान दिलाया कनिधम को भारतीय पुरातात्त्विक विभाग का पितामह कहा जाता है।
- 1921 में शर जॉन मार्शल के निर्देशन में ध्याराम शाहनी ने इसका उत्खनन किया।
- रावपर्थम इस स्थल की खोज होने के कारण यह स्थल हड्पा शम्यता कहलाया।

### अन्य नाम

रिंदू धाटी शम्यता  
शरखती नदी धाटी शम्यता  
कांच्य युग्मीन शम्यता  
नगरीय शम्यता




#### 1300 किमी लमुदी शीमा

## नोट -

- अफगानिस्तान में रिंदू धाटी शम्यता के मात्र दो स्थल थे। शार्टगोर्ड एवं मुंडीगॉक हैं।
- शार्टगोर्ड से गहरी द्वारा रिंचार्ड के लाक्ष्य मिले हैं
- रिंदू धाटी शम्यता मिश्र एवं मेसोपोटामिया के शम्यता से 12 गुना बड़ी थी। जबकि मिश्र की शम्यता से 20 गुना बड़ी थी।
- आजादी से पूर्व खोजे लमश्त लम्थल पाकिस्तान में चले गये। भारत में केवल दो लम्थल रहे, रंगपुर (गुजरात) और कोटला निंहंगां (रोपड पंजाब)
- भारत का शबसे बड़ा लम्थल शखी गढ़ (हरियाणा) है, दूसरा बड़ा लम्थल धोला वीथा (गुजरात) है।
- पिरगट ने हड्पा एवं मोहनजोदहो की रिंदू शम्यता की झुँडवा राजधानी बताया है।
- बड़े नगर (पाकिस्तान)  
गनेडीवाल  
हड्पा  
मोहनजोदहो

### कालक्रम -

- जॉन मार्शल - 3250 BC - 2750 BC  
माधोस्त्रक्षप वर्ता - 3500 BC - 2700 BC  
ईडियो कार्बन पद्धति - 2300 BC - 1750 BC  
एबरीआरटी - 2500 BC - 1750 BC  
फेयर शर्विस - 2000 BC - 1500 BC  
ओर्नेट मैके - 2800 BC - 2500 BC



## निवासी -

यहाँ से प्राप्त कंकालों के छायार पर चार प्रजातियों में बांटा जा सकता है।

1. भूमध्य शागरीय
2. अल्पाइग
3. मंगोलायड
4. प्रोटो आर्ट्रोलायड

शर्वाधिक प्रजाति भूमध्य शागरीय प्रजाति मिली है।

## नगर नियोजन -

- नगर दो भागों में विभाजित - पश्चिमी भाग एवं पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग दुर्गा था, पूर्वी भाग शामान्य नगर था।
- पश्चिमी भाग में प्रशासनिक लोग रहते थे। तथा पूर्वी भाग में जनशामान्य लोग रहते थे।
- शिंदू घाटी शब्दता में पक्की ईंटों के मकान हैं।
- शिंदू घाटी के शमकालीन शब्दताओं में इस विशेषता का झंभाव।
- नगर पटकोटे युक्त होते थे।
- घरों के दरवाजे मुख्य शडक की तरफ न खुलकर पिछे की तरफ खुलते थे। केवल लोथल में मुख्य शडक की तरफ घरों के दरवाजे खुलते थे।
- कालीबंगा दोहरे पटकोटे युक्त हैं। जबकि चन्हुड़ो में कोई पटकोटा नहीं।
- धोलाबीरा तीन भागों में विभक्त हैं। पश्चिमी, पूर्वी एवं मध्यमा।
- लोथल एवं सुरकोटा का पश्चिमी एवं पूर्वी भाग दोनों ही एक ही परकोटे से घिरे हुए हैं।
- नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित थे और्थात् शतरंज के बोर्ड की तरह अभी नगरों को बचाया था। अभी मार्ग शमकोण पर काटते थे।
- अबरी चौड़ी शडक 10 मीटर (मोहनजोदहो) की मिलती है जो अभवतः शतमार्ग रहा होगा।
- घरों में उत्कृष्ट नाली व्यवस्था (जल निकासी हेतु)
- बड़ी नालियों को ढक कर रखते थे।
- भवन के छन्दर शामान्यतः 3 या 4 कक्ष, रेसोर्डर, 1 विद्यालय रानागार एवं कुआं होता था। कच्ची एवं पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे।
- इंट का आकार - 1 : 2 : 4
- जल निकासी हेतु पक्की ईंटों की नालियां होती थीं विश्व की किसी छन्द शब्दता में पक्की नालियों के शाक्ष्य नहीं मिलते थे।

## प्रमुख नगर

### 1. हृष्णपुरः -

- प्राकिंत्यान के पंजाब के मौंटगोमरी ज़िले में स्थित (अब - शाहीवाल ज़िले में) शवी नदी के तट पर
- उत्खननकर्ता - द्वाराम शाहनी
  - शवी नदी के तट पर श्रमिकों के आवास एवं छन्दगार मिलते हैं।
  - R - 37 नामक क्षितिज मिलता है। एक शव को ताबूत में फ़फनाया गया है, इसे विदेशी की कब्र कहते हैं।
  - टीले पर निर्मित - क्लिल ने "माउण्ट A - B" कहा
  - शंख का बना बैल 18 वर्तकार चबूतरे मिले हैं।
  - यहाँ से शर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें मिली हैं।
  - 6 - 6 की पंक्ति में कुल 12 कमरों वाला आवास इथल मिला है।
  - एक लंत्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा की मृणमूर्ति मिली है। अभवतः उर्वरका की देवी होगी।

### 2. मोहनजोदहो : -

स्थिति = लरकाना (शिंदू, PAK)

शिंदू नदी के तट पर

उत्खननकर्ता = शखालदास बनर्जी

मोहनजोदहो का शाब्दिक अर्थ = मृतकों का टीला (शिंदू भाषा)

#### (i) विशाल रानागार -

- (a)  $11.88 \times 7.01 \times 2.43$  मीटर
- (b) अभवतया यहाँ धार्मिक छन्दुष्ठानों का आयोजन किया जाता रहा होगा ?
- (c) लर डॉग मार्शल ने इसे ताटकालिक अमर्यात्कार की आश्वर्यजनक इमारत कहा है।

- (ii) विशाल छन्दगार शिंदू शब्दता की अबरी बड़ी इमारत है। ल.  $45.71 \times 15.23$  मीटर चौड़ी है।

- (iii) महाविद्यालय के शाक्ष्य

- (iv) शूती कपड़े के शाक्ष्य

- (V) हाथी का कपालखण्ड

- (vi) कांशा की गर्तकी की मूर्ति मिली है।

- (vii) पुरोहित शजा की मूर्ति जो ध्यान की छवतथा में है

- (a) इसने शॉल औढ़ २५५ हैं जिस पर कशीदाकारी का कार्य किया गया है।

- (viii) यहाँ से मेसोपोटामिया की मुहर मिलती है।

- (ix) योगी की मूर्ति मिली है।

- (x) आदि शिव की मूर्ति मिली है।

- (xi) बांध से पतन के शाक्ष्य मिलते हैं।

(xii) शर्वाधिक मुहरें शिंद्यु घाटी के यहां मिलती हैं।

### 3. लोथल :-

स्थिति = गुजरात

- श्रीगवा नदी के किनारे

उत्खननकर्ता = S. R. शव (अंगनाथ शव)  
→ यह एक व्यापारिक नगर था।

(i) यहाँ से गोदिवाड़ा (Dockyard) मिलता है

(a) यह शिंद्यु घाटी की शबसी बड़ी कृति है।

(ii) मनके (Bead) बनाने का कारखाना

(iii) चावल के शाक्य

(iv) फारस की मुहर जो गोलाकार बटनमुमा है

(v) घोड़े की मृप्तियाँ

(vi) चक्रकी के ढो पाट

(vii) घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं (एकमात्र)

(viii) छोटे दिशा शुचक यंत्र

### 4. सुरकोटा / सुरकोटाः -

स्थिति = गुजरात

(i) घोड़े की हड्डियाँ

- शिंद्यु घाटी के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था।

### 5. रोजदी (गुजरात)

- हाथी के शाक्य

### 6. रोपड (PB)

मनुष्य के शाथ कुतों को दफनाने के शाक्य

### 7. धौलावीरा

गुजरात - कच्छ डिला (किसी नदी तट पर नहीं)

उत्खननकर्ता - रविंद्र शिंह विष्ट (1990 में)

• यह शबसी नवीन नगर है जिसका उत्खनन किया गया

• कृत्रिम जलाशय के शाक्य। संभवतः नहरों के माध्यम से खेती करते होंगे। (दुर्गाभाग, मध्यम नगर, नियला)

• यह नगर 3 आगों में बंटा हुआ था।

• एटेडियम एवं शूचना पट्ट के झवशेज मिलते हैं (खेल का मैदान)

### 8. चरहुड़ों

उत्खननकर्ता - एन. मजूमदार (डॉक्झों ने हत्या कर दी) - झर्नेस्ट मैके

- मनके बनाने के कारखाने (मणिकारी), मुहर बनाने का काम आदि।
- श्रीघोगिक नगर
- झाकर एवं झुकर शंखकृति के शाक्य मिलते हैं।
- कुतों द्वारा बिल्ली का पीछा करने के पद चिठ्ठ हैं।
- एक शौनकर्द्य पेटिका मिलती है। जिसमें एक लिपिटिक है।

### कालीबंगा:-

श्रवणिथाति- हनुमानगढ़

नदी-दृग्घट/सरखती/दृष्टिगती/चौतांग

उत्खननकर्ता- अमलाननद घोष

(1952) झन्य शहयोगी- बी. बी. लाल

बी. के. थापर

जे. पी. जोशी एम. डी. खर्टे

शाब्दिक झर्थ- काली चुड़िया

(पंजाबी भाषा का शब्द)

उपनाम- दीन हीन बरस्ती- कच्ची ईंटों के मकान।

### शामगी:-

- शात झिल वेदिकाएँ एवं हवन कुण्ड मिलते हैं,
- युग्मित शवाधान प्राप्त हुए।
- एक मानव कपाल खण्ड मिलता है, जिसे मस्तिष्क शोषन बीमारी तथा शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है।
- जूते हुए खेत के शाक्य मिलते हैं (एकमात्र इथान) एक शाथ ढो फसले, उगाया करते थे, जो एवं सरकों
- मकान कच्ची ईंटों के थे बल्लियों की छत होती थी
- जल निकाली हेतु लकड़ी की नालियों के शाक्य मिलते हैं झर्थात् शृदृढ़ जल निकाली व्यवस्था नहीं थी।
- ईंटों को धूप से पकाया जाता था।
- वृताकार चबूतरे एवं बेलनाकार मुद्रे (मैसोपोटामिया) मिलते हैं।
- लाल रंग के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं जिन पर काली एवं शफेद रंग की टेखाएँ खीची गई हैं।
- यहां से एक खिलौना गाड़ी एवं पंख फैलाए बगुले की मूर्ति मिलती है।
- यहां से ऊँट के झरिथ झरशेज मिलते हैं।
- यहां का नगर झन्य हडप्पा इथलों की तरह ही है, लेकिन यहां गढ़ी एवं नगर दोनों दोहरे परकोटे युक्त हैं।
- यहां उत्खनन में पांच इतर प्राप्त हुए हैं प्रथम दो इतर प्राक हडप्पा कालीन हैं। झन्य तीन इतर कालीन हडप्पा हैं।

यहां प्राचीनतम भूकम्प के शक्ति प्राप्त होते हैं।  
इतिहासकार दर्शाये थे कि अनुशार यह हड्पा शक्ति की तीसरी राजधानी है।  
यहां एक क्षेत्रीय मिला है जिसे यहां के लोगों की शासन पद्धति की जानकारी भी मिलती है।  
हड्पा लिपि

- लगभग 64 मूल विहन व 400 तक अक्षर
- इन्हें लिपि का ज्ञान था
- दायी से बायी ओर लिखते थे।
- गोमूर्त्राक्षर लिपि एवं भाव-चित्रात्मक लिपि थी।
- 375 से 400 तक भाव एवं शब्दों का प्रयोग करते थे।

### पतन के कारण

- गार्डन चाइल्ड तथा क्लीलर के अनुशार आर्यों का अक्षमण
- रंगनाथ शव तथा 32 डॉग मार्शल - बाढ़
- लोम्बिरिक-रिंदु नदी का मार्ग बदलता
- आरट्टर्ड्जन एवं अमलानंद घोष-जलवायु परिवर्तन

### अन्य महत्वपूर्ण तथ्य -

- कपात का उत्पादन शर्वप्रथम शिंद्युवासियों ने किया।
- शास्त्रीय अभिलेख में शिंद्यु वासियों की मेलुहा (नाविकों का देश) कहा गया है।
- शिंद्यु वासियों का प्रिय पशु कुबड़ वाला बैल था।
- दूसरा मुख्य पशु एक लींग वाला गैंडा था।
- मातृ अतामक वाला अमाज था।
- शर्वाधिक मूर्तियां मातृ देवी की मिली हैं।
- लिंग एवं योगि की पूजा करते थे।
- योग से परिचय थे।  
प्राकृतिक बहुदेव वाद में विश्वास करते थे।
- मृत्यु के बाद भी जीवन में विश्वास करते थे।
- शिंद्युवासी घोड़ा, गाय, शेर और ऊंट से परिचय नहीं थे।
- शिंद्यु वासी लोहे से परिचय नहीं थे

**वैदिक  
काल(शाहित्य)**  
1500 - 600 BC

इस काल को हम दो भागों में बांट सकते हैं।

1. ऋग्वैदिक काल (1500 BC - 1000 BC)
2. उत्तरवैदिक काल (1000 BC - 600 BC)

### परिचय -

वैदिक शक्ति आर्यों द्वारा बसाई गई शक्ति है।

इस काल का इतिहास इस काल में लिखे गए शाहित्य पर आधारित है। इस शाहित्य को वैदिक शाहित्य / श्रव्य शाहित्य भी कहा जाता है। जो मिस्त्र हैं।

- |   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. वेद ⇒ श्रुति</li> <li>2. ब्राह्मण ⇒</li> <li>3. श्लाष्ट्रक ⇒</li> <li>4. उपनिषद् ⇒ वेदान्त</li> </ol> | <span style="font-size: 2em;">[</span> <span style="font-size: 2em;">]</span> | <b>वैदिक शाहित्य</b> |
|---|---|----------------------|

- |   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) वेदांग</li> <li>(2) धर्मशास्त्र</li> <li>(3) महाकाव्य</li> <li>(4) पुराण</li> <li>(5) श्मृतियाँ</li> </ol> | <span style="font-size: 2em;">[</span> <span style="font-size: 2em;">]</span> | <b>वैदिक शाहित्य का छंग नहीं है।</b> |
|---|---|--------------------------------------|

### वेद -

- वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेदव्याख्या ने किया।
- वेदों का नित्य, प्रामाणिक एवं अपौरुषेय माना जाता है।
- वैदिक मन्त्रों की अन्या करने वाले ब्राह्मणों को दृष्टा कहते हैं।
- वेद 4 हैं -

### 1. ऋग्वेद -

- ऋग्वेद में 10 मण्डल, 1028 श्लोक, 10580(10600) मन्त्र हैं।
- पहला एवं 10वाँ मण्डल बाद में जोड़े गए हैं।
- दूसरे से लेकर शातवें मण्डल को वंश मण्डल /परिवार मण्डल कहा जाता है।
- तीसरे मण्डल में गायत्री मन्त्र का उल्लेख मिलता है।
  - गायत्री मंत्र की अन्या विश्वामित्र ने की।

- गायत्री मंत्र शवितृ / शावितृ (शुर्य) को शमर्पित है।
- शातवें मण्डल में दशराजा/ दशराजन युद्ध का उल्लेख मिलता है।  
भरत कबीला V/S 10 कबीले  
शाजा = शुदारात  
पुरोहित = वशिष्ठ पुरोहित = विश्वामित्र
- यह युद्ध शवी नदी के ऊपर लड़ा गया था
- आठवें मण्डल में घोसा, रिकाता, ऋपाला, विश्वरा, काक्षावृति, लोपामुद्रा औरी ऋषि महिलाओं के नाम मिलते हैं।
- 9वां मण्डल शोम को शमर्पित है।
- ऐम का निवास स्थान मुजवन्त पर्वत है।
- 10वें मण्डल के पुरुष शुक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख / आर्णे वर्ण का उल्लेख मिलता है।
- 10वें मण्डल के नाशकीय शुक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है।
- ऋग्वेद के मन्त्रों को उच्चारण करने वाला ब्राह्मण = होतृ
- उपवेद = ऋयुर्वेद

## 2. यजुर्वेद :-

- यह 2 भागों में है - (i) शुक्ल यजुर्वेद  
(ii) कृष्ण यजुर्वेद

- यह गद्य एवं पद्य दोनों में है।
- इसमें शूद्र्य का उल्लेख मिलता है।
- मंत्र पढ़ने वाले को "ऋघ्वर्यु" कहा जाता है।
- यज्ञ - ऋग्वेदों की जानकारी मिलती है।
- उपवेद - धनुर्वेद

## 3. शामवेद :-

- शंगीत का प्राचीनतम छोट
- वैदिक मन्त्रों के उच्चारण को बताया गया है जो उच्च श्वर में गाए जाते हैं।
- भगवान कृष्ण का प्रिय वेद
- मन्त्रों का उच्चारण करने वाला = उद्गाता
- उपवेद = गठधर्ववेद

## 4. ऋथवेद :-

- ऋथर्व ऋषि तथा ऋंगीरक्षा ऋषि - इच्छिता
- ऋन्य नाम - ऋथर्वऋंगीरक्षा वेद
- इसमें काले जादू, टोने - टोटको व चिकित्सा का उल्लेख। औषधि प्रयोग, शत्रुओं का दमन, रोग निवारण, तंत्र - मंत्र आदि।
- मन्त्रों का उच्चारण करने वाला - ब्रह्म
- उपवेद - शिल्पवेद।

वेद एवं उनके लंबंधित उनके ब्राह्मणक, आरण्यक एवं उग्रिद ग्रंथ

वेद	भाग	विषय	पुरोहित	ब्रह्मणक	आरण्यक	उपनिषद
ऋग्वेद	शाकल बालशिवल्य वार्कल	छन्द/प्रार्थनाएं	होता/होतृ	ऐतरैय	ऐतरैय कौशीतकी	ऐतरैय कौशिलकी
यजुर्वेद	कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद	उच्च श्वर में उच्चारित किये जाने वाले मंत्र	ऋग्नर्यु	शतपथ तैतरैय मां, यन	तैतरैय मंत्रायन वृहदारण्यक	कठ, तैतरैय वृहदायण्यक गाराण्यणश्वर, श्वेतश्वर, ईश
शामवेद	कौथूम, राणण्यम और डैनिय	शंगीत, गायन	उद्गता	पंचविष, जडविष डैमीनी	डैमीनी छन्दोग्य	केन डैमीनी छन्दोग्य
ऋथवेद	शौनक, पीलाद	ओतिकवादी जादू, टोना लौकिक विधि विद्यान	ब्रह्मा	गोपथ	-	प्रथन, मुण्डक, मांडुक्य

- मुण्डकोपनिषद् से शत्यमेव जयते लिया गया है।
- प्रथम तीन वेदों की वेदव्रय कहा जाता है।
- शबरी प्राचीन उपनिषद् छान्दोग्य उपनिषद् है।
- उपनिषद् को वेदांत कहते हैं।

### वेदांत -

वेदों के शर्तलीकरण हेतु इनका निर्माण किया गया। यह वैदिक शाहित्य का हिस्सा नहीं है। इसके छह भाग हैं

- शिक्षा - इसी वेदों की गाणिका कहा जाता है।
- उच्चीतिष्ठ - इसी वेदों की ऊँच कहा जाता है।
- व्याकरण - इसी वेदों का मुख कहा जाता है।
- छन्द - इसी वेदों का पैर कहा जाता है।
- मिरुक्त - इसी वेदों का कान कहा जाता है।
- कल्प - इसी वेदों की हाथ कहा जाता है।

कल्प के अंतर्गत शुल्व शुत्र उपायिति की शबरी प्राचीनग्रन्थ है।

पुराण - शंख्या - 18

ऋषि लोमर्हण एवं इनके पुत्र उग्रश्रवा ने शंकलित किया

- मत्स्य पुराण - शबरी प्राचीन एवं प्रामाणिक इसमें शातवाहन शासकों का उल्लेख, शुंगवंश का उल्लेख
- विष्णु पुराण - मौर्य वंश का उल्लेख
- वायु पुराण - गुप्त वंश का उल्लेख
- मार्कण्डेय पुराण - देवी महात्म्य - (इसका आग दुर्गाशप्तशती) महामृत्युञ्जय मंत्र
- मत्स्य पुराण - शबरी प्राचीन एवं प्रामाणिक इसमें शातवाहन शासकों का उल्लेख, शुंगवंश का उल्लेख

### अमृति शाहित्य:-

- शबरी प्राचीन उपनिषद् छान्दोग्य उपनिषद् है।
- इसमें शामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है

### आर्यों का निवास:-

- आर्यों के निवास के बारे में विभिन्न मत प्रचलित हैं
  - बाल गंगाधार तिलक के अनुशार आर्यों का मूल निवास उत्तरी द्यूत है।
  - द्यानंद शरस्वती के अनुशार तिष्बत मूल के आर्य हैं।
- मेकथ मूलर के अनुशार आर्य मध्य एशिया (बैकिटरिया) हैं

आर्यों के उत्पत्ति के शंबंधित हाल ही में शाखीगढ़ में उत्थन थे भी आर्यों की मूल उत्पत्ति के शंबंध में पता नहीं लग पाया।

शिंद्धु वासियों का शाखीगढ़ से जो डीएनए मिला है। वह डीएनए उत्तर भारतीयों एवं दक्षिण भारतीयों में भी पाया गया है।

### ऋग्वेद काल के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य -

- ऋग्वेद में शबरी उपायिति नदी का उल्लेख मिलता है।
- शरस्वती शबरी पवित्र नदी थी। (देवीतमा, मातेतमा, नदीतमा)
- गंगा व शश्य का उल्लेख 1 - 1 बार
- यमुना का उल्लेख 3 बार
- "शुजवन्त" नामक पहाड़ी चौटी का उल्लेख - जो कि हिमालय है।
- ऋग्वेद में वर्तमान की कई नदियों का उल्लेख मिलता है।

शिंद्धु	शिंद्धा
झेलम	वितरता
शवी	परूषणी
व्यास	विपाता
शतलज	शतुदी
चीनाव	अचिकिनी
शरस्वती	शरस्वती
गोमल	गोमती
स्वात	स्वाट्तु
कुर्म	कुर्म
काबुल	कुम्भा

गोट- गोमल, स्वात, कुर्म, काबुल ऋषगानिस्तान की नदियां हैं।

ऋग्वेद कालीन प्रशासन का मुख्य शाजा होता था। शाजा के शहरों हेतु तीन शंस्थाओं का उल्लेख मिलता है।

यहां प्रशासन खंड शतीय होता है। जन शबरी बड़ी इकाई थी।

ऋग्वेद में उल्लेख 275 बार। जिसका प्रमुख शाजा होता था।

विष का उल्लेख 70 बार।

ग्राम का उल्लेख 13 बार।

- शभा - ऋग्वेद में शाठ बार उल्लेख, कुलीन लोगों की शंस्था थी।
- शमिति - ऋग्वेद में तीन बार उल्लेख जनशामान्य की शंस्था थी।
- विदथ - यह शबरी प्राचीन शंस्था है। 122 बार उल्लेख मिलता है। कार्यशीली की जानकारी नहीं मिलती।

- आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था।
- वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी।
- तीन वर्णों का उल्लेख मिलता है।
- महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे। घोषा, शिक्षा, अपाला, विषपला (योद्धा), नामक महिला विद्वानियों को जिक्र मिलता है।

ऋग्वेद काल में मिमन प्रमुख देवता थे।

- इँड - ऋग्वेद में 250 बार उल्लेख। इसी पुर्वदर्शक कहा गया है।
- वस्त्रण - ऋग्वेद में 30 बार उल्लेख। ऋत का देवता है।
- अग्नि - ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख।

आर्यों की ऋथव्यवस्था पशुपालन आधारित थी। युद्ध गायों के लिए होते थे।

### उत्तरवैदिक काल - 1000 - 600 BC

- महत्वपूर्ण स्त्रोत - यजुर्वेद, शामवेद, ऋथवेद, ब्राह्मण, उपनिषद् व आरण्यक
- आर्य शंखृति के प्रसार और विकास, उत्कर्ष, विभिन्नीकरण का युग
- लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत। ("यित्रित धूर्ण शृद्धाण्ड")

राजनीतिक जीवन - राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था :-

- राजा का पद वंशानुगत हो गया था।
- ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की विभिन्न उपाधियों का वर्णन मिलता है।  
स्वराट, विराट, एकराट, त्र्याट
- राजा की शहायता हेतु 12 रत्निन् होते थे।
- राजा यज्ञों का आयोजन करता था।
  - ऋथमेध यज्ञ - यह शास्त्राद्यवादी यज्ञ होता था। 3 दिन तक होता था।
  - राजशूय यज्ञ - राज्याभिषेक के शमय किया जाता था इस दिन राजा हल चलाता था। अपने रत्निनों का निमंत्रण श्वीकार कर, उनके घर भोजन करने जाता था।
  - वाजपेयी यज्ञ - १८ दौड़ का आयोजन करते थे राजा हित्या लेता था व हमेशा जीता था।
- राजा के पास इथायी लेना नहीं होती थी।
- ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला इवेच्छिक कर, और अनिवार्य हो गया, जिसे 'बली' कहा जाता था। (1/16वाँ भाग)
- विद्ध का उल्लेख नहीं मिलता।
- शभा, एवं शमिति का प्रभाव कम हो गया था।

- ऋथवेद - शभा व शमिति को प्रजापति की पुत्रियाँ कहा गया हैं।
- राजा की "दैवीय उत्पति का शिद्धान्त" शर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है।

### आर्थिक जीवन :-

- कृषि का विकास हो चुका था।
- ऋथवेद में "पृथवेन्द्रु" को कृषि धारती पर लाने का श्रेय जाता है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के शभी प्रकारों (जुताई, बुआई, कटाई) का उल्लेख मिलता है।
- शतपथ ब्राह्मण की काठक शंहिता में (24 बैलों द्वारा खिंची जाने वाले) हल का वर्णन मिलता है।
- गेहूँ एवं जीव प्रमुख फसले थी।
- पशुपालन भी होता था।
- वस्त्रु विनियम होता था।
- विनियम में गाय व निष्क्रिय का प्रयोग होता था। निष्क्रिय - शोने का आभूषण जो गले में पहनते थे।
- कृषि में लौह निर्मित उपकरणों का प्रयोग (अनतर्जीखेडा से शक्त्य)
- शमुद्र का ज्ञान हो गया था।

### शासाजिक जीवन :-

- पितृसत्तात्मक शंखुकत परिवार
- चार वर्णों में शमाज विभक्त हो गया था। किन्तु ऋत्यपृथियता का अभाव था।
- ब्राह्मणों को 'अदायी' कहा जाता था। आरम्भ के 3 वर्ग द्विज कहलाते थे। (जनेऊ धारण करते हैं) उपनयन शंखकार होता था। द्विज - दो बार जन्म लेने वाला
- क्षुद्रों को उपनयन शंखकार का अधिकार नहीं था।
- महिलाओं की इथिति में गिरावट आयी। (वृहदारण्य उपनिषद् में याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का लंबाद मिलता है।)
- ऋथवेद में पुत्री जन्म को दुःखदायी बताया है।
- ऐतरेय ब्राह्मण में भी पुत्री जन्म को दुःखदायी बताया है। (पुत्री - कृपण कहा)
- मैत्रायणी शंहिता में भी पुत्री को शशब एवं त्रुञ्जा की तरह बुराई बताया है।
- महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। EX - गार्गी, मैत्रेयी, वेदवती
- शति प्रथा, बाल विवाह, पर्द्द प्रथा का प्रचलन नहीं था।

### धार्मिक स्थिति

- प्रमुख देवता - ब्रह्मा, विष्णु, महेश। पाँच प्रकार के यज्ञ होते थे (पंचयज्ञ)।
  - (i) ब्रह्म यज्ञ
  - (ii) देव यज्ञ
  - (iii) आतिथि यज्ञ
  - (iv) पितृ यज्ञ
  - (v) भूत यज्ञ
- ब्रह्म यज्ञ को “ऋणि यज्ञ”, आतिथि यज्ञ को “मनुष्य यज्ञ” भी कहते थे। (भूत यज्ञ - प्राणी जगत् व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता)

### ३ ऋण -

- (i) ऋणि ऋण
- (ii) देव ऋण
- (iii) पितृ ऋण

### बौद्ध धर्म

#### संस्थापक - गौतम बुद्ध

जन्म	- 563 B.C.
पिता	- शुद्धोदान
माता	- महामाया
मौसी	- प्रजापति गौतमी
पत्नी	- यशोधरा
पुत्र	- राहुल
जन्मस्थान	- लुम्बिनी (कपिलवर्धन)
आध्यात्मिक	- स्तम्भन देव, नेपाल
वंश	- इक्षवाकु शाक्य क्षत्रिय
गौत्र	- गौतम

- 4 घटनाएँ जिन्होंने बुद्ध का जीवन बदल दिया -
  - (i) वृद्ध व्यक्ति
  - (ii) बीमार व्यक्ति
  - (iii) मृत व्यक्ति
  - (iv) शन्यासी
- 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया यह घटना -- “महाशिनिष्ठमण” कहलाती है।
- बुद्ध ने “मध्यम मार्ग” का प्रतिपादन किया।
- बुद्ध उख्वेला चले गये एवं वहाँ निर्जन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई।
- अब शिद्धार्थ “गौतम बुद्ध व शाक्य मुनि” के नाम से प्रशिद्ध हुये।
- शारनाथ में कौड़िन्य एवं अन्य ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया इसे “धर्मचक्र प्रवर्तन” कहते हैं

- शार्वाधिक उपदेश - श्रावस्ती में दिये।
- आगरद प्रिय शिष्य तथा उपालि प्रमुख शिष्य था।
- आगरद के कहने पर भगवान बुद्ध ने महिलाओं को लंघ में प्रवेश दिया। प्रजापति गौतमी - पहली ‘अिक्षुणी’
- 483 B.C. में बुद्ध की मृत्यु - खुशीनारा में (खुशीनारा) खुशीनगर
- भगवान बुद्ध के प्रतीक -
  1. हाथी/ लफेद हाथी - भगवान बुद्ध के गर्भस्थ होने का प्रतीक
  2. शांड/कमल - जन्म
  3. घोड़ा - गृहत्याग का प्रतीक
  4. बोधिवृक्ष/पीपल - ज्ञान का प्रतीक
  5. पद्मिनि - निवारण का प्रतीक
  6. इत्युप - मृत्यु का प्रतीक
- 7. अम्बोधि - 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध को बोधगया में निर्जन नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई।

### ज्ञान/ दर्शन -

#### ४ आर्य शत्य

- (i) दुःख है।
- (ii) दुःख का कारण है। (प्रतीत्य अमुत्पाद)
- (iii) दुःख निवारण है।
- (iv) दुःख निवारण का मार्ग है।

### अष्टांगिक मार्ग -

1. अम्यक् दृष्टि
2. अम्यक् शंकल्प
3. अम्यक् वाक्
4. अम्यक् कर्मान्त
5. अम्यक् आजीव
6. अम्यक् व्यायाम
7. अम्यक् अमृति
8. अम्यक् शमादि

### कार्य कारण/ कारणता शिद्धान्त - प्रतीत्य अमुत्पाद (ऐशा होने पर -वैशा होना)

- दुःखों का कारण अविद्या को बताया है।
- कर्म शिद्धान्त में विश्वास रखते हैं।
- पुर्जन्म में विश्वास रखते हैं।
- अनात्मवादी होते हैं। आत्म की अमरता में विश्वास नहीं रखते हैं।
- अनीश्वरवादी होते हैं। ईश्वर के प्रश्न पर बुद्ध मुर्कश देते थे।
- क्षणिकवाद (अनित्यवादी) - इस जगत की सभी वस्तुएं अनित्य एवं परिवर्तनशील हैं।

- आख्यापाली (वैशाली) भी बौद्ध शंघ में समिलित हो गयी थी

### निर्वाण -

- निर्वाण का शाब्दिक अर्थ “दीपक/विज्ञान का बुझ जाना” होता है।
- भगवान् बुद्ध ने निर्वाण की ऋणथा का उल्लेख नहीं किया है।

### बौद्ध धर्म की चार शंगीति -

शंघ	शास्त्र	शास्त्रक	अध्यक्ष
1. 483 B.C.	राजगृह	क्षितिरात्म	महाकर्त्त्व
2. 383 B.C.	वैशाली	कालारोक	कालकर्त्त्व
3. 251 B.C.	पाटलिपुर	श्रीक	मोगलीपुर तिरक्ष
4. 1 <sup>st</sup> Cent. कुण्डलवन (कर्मी)	कुण्डलवन	कर्मीक	श्रवणीज / वसुनिधि

### (1) प्रथम शंगीति - दो पुस्तके (ग्रन्थ) लिखी गई


- (i) शुत पिटकः - भगवान् बुद्ध का जीवन, उपदेश, शिक्षाएँ, तथा बौद्ध धर्म की जागकारी मिलती है। इसके खुदक निकाय में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएँ (जातक) मिलती हैं। इसकी श्याम श्याम ने की थी।
- (ii) विनय पिटक - शंघ के नियम तथा बौद्ध भिक्षुओं के आचार विचार (आचरण) का वर्णन मिलता है। इसकी श्याम उपाली ने की थी।

### (2) द्वितीय शंगीति - बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया।

- श्वेतविर तथा महासंघिक - दो भागों में विभक्त

### (3) तृतीय शंगीति - इसमें तीर्थरे पिटक - अभिधार्म पिटक की श्याम की गई। इसमें “बौद्ध धर्म के दर्शन” का वर्णन हैं शंयुक्त रूप से शुत - विनय - अभिधार्म पिटक को “त्रिपिटक” कहा जाता है अभिधार्म पिटक की श्याम मोगलीपुर तीर्थ ने की थी।

### (4) चतुर्थ शंगीति - बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया हीनयान (छोटी गाड़ी) एवं महायान (बड़ी गाड़ी) हीनयान एवं महायान भी कई शाखाओं में विभक्त हो गया।



### बौद्ध धर्म के त्रिरूप

बुद्ध, धर्म और शंघ

शंकराचार्य को प्रच्छन्न / छद्म बुद्ध कहा जाता है। बौद्ध शंघ में प्रवेश उपर्युक्त उपर्युक्त कहलाती है।

गृह त्यागना प्रवद्धा कहलाता है।

शुतपिटक को बौद्ध धर्म का एन शाइक्लोपिडिया कहा जाता है।

बौद्ध धर्म का शब्दों बड़ा श्वेत बोरो बद्दूर श्वेत इण्डोनेशिया में है।

### जैन धर्म

- शंस्त्रापक - ऋषभदेव / आदिनाथ दोनों का वर्णन ऋषवेद में
  - 21वें तीर्थकर - गेमीनाथ
  - 22वें तीर्थकर - अरिष्टगेमी - (कृष्ण के दमकालीन)
  - 23वें तीर्थकर - पार्श्वनाथ
  - महावीर श्वामी (24वें)
- महावीर को निगठनाथपुत कहा जाता है।
- जन्म - 540 B.C. भाई - नन्दीबर्मन
  - श्वेतविर - कुण्डग्राम
  - मृत्यु - पावापुरी (बिहार)
  - बचपन का नाम - वर्धमान
  - पिता - शिद्धार्थ
  - माता - त्रिशला
  - पत्नी - यशोदा
  - पुत्री - प्रियदर्शना दामाद - जामालि
- 30 वर्ष में गृहत्याग।

# सामान्य विज्ञान

1. कार्बन डेटिंग विधि जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपार्स जाती है।
2. अत्यधिक शराब का लेवल करने से शरीर में यकृत विशेष रूप से प्रभावित होता है।
3. शरीर में प्लीहा तक बैक का काम करता है।
4. हरे पौधों में प्रकाश उत्तेजण की इकाई क्वाण्टोफोटोम कहलाती है।
5. शरीर में तक की लफेद कणिकाओं का मुख्य कार्य शरीर को बीमारियों से बचाना होता है।
6. मछली के हृदय में दो प्रकोष्ठ होते हैं।
7. मानव शरीर में तक से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य वृक्क करता है।
8. चालीस वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित "अप्सरा" एक नाभिकीय रियेक्टर है।
9. डायनमो का कार्य यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है।
10. पिचब्लेण्डी से ऐडियम तत्व प्राप्त किया गया था।
11. गिरिगिट की त्वचा में टंग बदलने का कारण उसकी त्वचा में मेलेबोफोर नामक अतिरिक्त रेंगड़व्य कीशिकाओं की उपस्थिति है।
12. प्रकृति में लबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक ऐल्यूलोज है।
13. वृद्धावस्था का अद्ययन विज्ञान की डिरेन्टोलॉजी शाखा के अन्तर्गत किया जाता है।
14. डॉलोमाइट कैल्शियम का अवृत्त है।
15. अद्ये फलों में विटामिन बी (B6) पाया जाता है।
16. घृणी की तीव्रता मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर कहलाता है।
17. दूध का खद्दा होना जीवाणुओं के कारण होता है।
18. श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिडम छाशा अवधिक विचलित होने वाला टंग बैगनी टंग है।
19. ऐफिजिएटर में प्रशीतक फ्रेंज़ॉन गैस होती है।
20. दूध से ढही बनाने में लैकटोबैक्टिलस बैक्टीरिया शाहायक होता है।
21. वृक्क के कार्य न करने पर डाइलोशिस किया जाता है।
22. मनुष्य के मरितष्क का लबसे बड़ा भाग प्रमरितष्क होता है।
23. शाइफल चलाने पर लगने वाला झटका ऐखीय शैवेग के उत्क्षण का उदाहरण है।
24. प्रयोगशाला में शर्वप्रथम जीन का उत्तेजण करने वाले वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना थे।
25. चन्द्रमा पर वायुमण्डल न होने का कारण वहाँ लभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है।
26. क्लोराला कोशिकीय शैवाल का उपयोग अन्तरिक्ष में खाद्य की अनुचित पूर्ति के लिए किया जाता है।
27. प्राकृतिक द्वय आइसोप्रीन का बहुलक है।
28. द्वय की यौथी अवस्था प्लाइमा कहलाती है।
29. प्रत्यावर्ती धारा की माप तप्त तार अग्रीटर से की जाती है।
30. प्रकाश तरंगों के द्वय गुण से उनके अनुपस्थि होने का प्रमाण मिलता है।
31. एक वृताकार वलय का गुणत्व केन्द्र वलय वृत्त के केन्द्र पर होता है।
32. मानव द्वय का pH मान 7.4 होता है।
33. खनिज उत्तेजना की दृष्टि से हीशा कार्बन होता है।
34. ग्रह गति का शिद्धान्त केप्लर ने प्रतिपादित किया।
35. हाइड्रोजन बम नाभिकीय उत्तेजना शिद्धान्त पर आधारित है।
36. प्रोटॉन की खोज दरफोर्ड ने की थी।
37. पानी पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है।
38. हीरे के अम्बरद्वय में कैरेट हीरे के भार का मात्रक होता है।
39. गैल्वेनीकृत लोहे पर डिंक का लेप होता है।
40. भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस शी.वी.टमन छाशा टमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
41. 7 नवम्बर, 1888 को भारत के महान वैज्ञानिक शी.वी.टमन का जन्मदिन है।
42. आयोडिन युक्त नमक का प्रयोग गलगण्ड बीमारी की शोकथाम के लिए किया जाता है।
43. विद्युत मोटर का कार्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
44. पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम/घन सेंटीमीटर है।
45. शुर्य सौंदर्य पूर्व में निकलता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है।
46. पौधों में वाष्पोट्टर्जन दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है।
47. ऐड लेड का शाखायनिक शून्य  $Pb_3O_4$  है।
48. मानव शरीर में विटामिन K का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया छाशा होता है।
49. Dark Avenger एक प्रकार का प्रमुख कम्प्यूटर वायरस है।
50. फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की शैवाल शाखा का अद्ययन किया जाता है।
51. विटामिन B<sub>12</sub> में कोबाल्ट पाया जाता है।
52. मेनिनजाइटिस (तानिका शोष्ठा) नामक रोग से शरीर में मरितष्क प्रभावित होता है।
53. मानव शरीर में तक का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण हिपेरिज की उपस्थिति है।
54. चाय बनाने के लिए विद्युत छाशा केतली में पानी उंचान विधि छाशा गर्म होता है।

55. वृद्धों के चिकित्साशास्त्रीय अध्ययन को गैरियाट्रिक्स कहा जाता है।
56. हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग इस में ग्लूकोज की कमी से होता है।
57. एच.टी.एल.वी.-॥ नामक वायरस से एड्स रोग फैलता है।
58. मानव शरीर में शब्दे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है।
59. एन्जाइम मूलतः प्रोटीन है।
60. पिता का निर्माण शरीर के यकृत में होता है।
61. कृष्ण छिप (Black Hole) शिद्धान्त का प्रतिपादन एस. चन्द्रशेखर ने किया था।
62. काङ्गोकोवालमिन विटामिन B12 है।
63. टेट्रा इथाइल लैड पेट्रोल में एन्टीगॉकिंग रेटिंग (अपरफोटन की दर) को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है।
64. हीरे की चमक पूर्ण आनतरिक परावर्तन के कारण होती है।
65. आपेक्षिक आर्द्धता हाइड्रोमीटर द्वारा मापी जाती है।
66. रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिम्ब वास्तविक, उल्टा तथा वर्तु से छोटा होता है।
67. पोलिया का टीका शर्वप्रथम जोनस शाल्क ने तैयार किया था।
68. गोबर गैस का मुख्य शंघटक मीथेन है।
69. न्यूट्रन/किंवा त्वरण भौतिक शरि का मात्रक है।
70. गॉयटर नामक रोग शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है।
71. वाइरोलॉजी में विजापुर्झों का अध्ययन किया जाता है।
72. विटामिन C का शासायनिक नाम एकार्बिक अम्ल है।
73. कामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्त दाब 80 मिलीमीटर पारे के बराबर होता है।
74. कैलोमल मरक्युरिक शल्फाइड होता है।
75. शिंद्हू का शासायनिक नाम लैड ट्रेटार्क्साइड मरक्युरिक शल्फाइड है।
76. 'झूठा सोना' प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन शल्फाइड अथवा आयरन पाइराइट्स कहलाता है।
77. पेट्रिक्याटिक जूँझ में पाया जाने वाला एन्जाइम ट्रिप्सिन है।
78. आँतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में पेप्सिन एन्जाइम उपयोग होता है।
79. एस्ट्रो-डी ब्रह्माण्ड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्स २ उपग्रह है।
80. ध्रुवतारे के पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में रिथ्ट हैं जो के कारण ध्रुवतारा एक ही स्थान पर दिखाई देता है।
81. मानव हृदय का मान्यतः प्रति मिनट 72 बार रूपांतर करता है।
82. स्टिफ्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्त दाब मापते हैं।
83. जन् 1902 में कार्ल लैन्डस्टीनर ने रक्त अमूर की खोज की थी।
84. प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण अमूर का जल नीला दिखाई देता है।
85. प्रोटीन गाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है।
86. इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
87. जैविल पुरकार से अम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र में मैडम क्यूरी (1930) थी।
88. जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार अम्पूर्ण जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है, शुर्क के छाता हटाए गए पानी का भार शुर्क के भार से कम होता है जिससे शुर्क पानी में डूब जाती है तथा जहाज पानी में तैरता रहता है।
89. भारत का श्वदेशी निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह इनोट-2 है।
90. शुर्य के प्रकाश की शहायता से शरीर में विटामिन D का निर्माण होता है।
91. हैली पुच्छल ताश प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है।
92. पशाश्रव्य तरंगों की शहायता से चमगाढ़े शत में शुरक्षित उड़ती है।
93. HIV विजाणु से एड्स रोग होता है।
94. रक्त का थकका जमाने में विटामिन K शहायक होती है।
95. एम्पियर लेकेण्ड आवेश की मात्रा का मात्रक है।
96. लॉफिंग गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड है।
97. बाह्य चुम्बकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा लीह कवर में रखकर की जाती है।
98. परमाणु बिजली घरों में नाभिकीय शंखयन प्रकार की अभिक्रिया होती है।
99. Y किरणों पर किरी प्रकार का आवेश नहीं होता है।
100. शरीर का अम्पूर्ण रक्त वृक्क के माध्यम से शुरक्षित होता है।
101. हाइड्रोफाइट जलीय पौधों को कहते हैं।
102. दो अमानतर दर्घणों के बीच रक्त के प्रतिबिम्ब बनते हैं।
103. दो अमानतर दर्घणों के बीच रक्त का शब्दे अधिक चमकीला प्रतिबिम्ब दूसरा प्रतिबिम्ब होता है।
104. तेल का जल की शतह पर फैल जाने का कारण तेल का पृष्ठ तगड़ा जल की अपेक्षा कम होता है।
105. पेनिशल लैड ग्रेफाइट की बनी होती है।
106. अडक पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में अडक की अपेक्षा घर्जन कम होता है।

107. लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुखत हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लम्बाई बढ़ जाती है जिससे घड़ी सुखत हो जाती है।
108. ऊँचे इथानों पर पानी  $100^{\circ}\text{C}$  से कम ताप पर उबलता है, क्योंकि वहाँ वायुमण्डलीय दाब कम होता है।
109. पीतल, जल्दा और तांबा की मिश्र धातु है।
110. गैरिंगों के दाब झात करने वाला यंत्र मैग्नेसिटर कहलाता है।
111. भारा एटॉमिक रिसर्च सेन्टर ट्रॉम्बे में स्थित है। पाँचवें नाभिकीय रिएक्टर का नाम ध्रुव है।
112. अम्नाशयी इथ में पाया जाने वाला एनजाइम ट्रिप्पिन है, जो प्रोटीन या पेप्टोन को छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है।
113. मनुष्य में दाढ़ रोग के रोगकारक कवक का नाम माइक्रोस्पोरा है।
114. एकवीं नामक रोग विटामिन C के अभाव के कारण होता है।
115. लंबसे भारी धातु ओशमियम है।
116. विद्युत का लंबसे अच्छा चालक चैंडी है।
117. पौटिशियम का अयरक 'कर्नेलाइट'  $\text{KCl}, \text{MgCl}_2\text{6H}_2\text{O}$  है।
118. यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अन्ततः शीथा प्राप्त होता है।
119. ध्वनि को मापने की इकाई डेसीबल है।
120. ऐनलेक्स ल्टील क्रोमियम, लोहा और निकेल धातुओं को सिंथेट करके बनाया जाता है।
121. मधुमेह के रोगी के पेशाब में शर्करा की अधिकता हो जाती है।
122. अव्यालित ब्रेक पास्केल के नियम के आधार पर बने हैं।
123. डी.एन.ए अंशलेषण का प्रतिपाद्न किया था? उत्तर - कर्निंग ने
124. फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का शासायनिक नाम लोडियम थायो लॉफेट है।
125. भोपाल गैस दुर्घटना में सिक का रिशाव हुआ था इस गैस का पूरा नाम मिथाइल आइसो शायगेट  $\text{CH}_3\text{NCO}$  है।
126. गेहूँ का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम ऐस्ट्रिकम तथा ट्रिटिकम वल्गोयर है।
127. ओक्टोगोमीटर से पौधों की ऐक्षीय वृद्धि दर मापी जाती है।
128. कमरे में रखे ऐफिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे का ताप बढ़ जाता है।
129. मनुष्य की श्रव्यता की शीमा 20 हर्ट्ज से 20000 हर्ट्ज तक है।
130. हरा कर्णीश का शासायनिक ध्रुव  $\text{FeSO}_4\cdot7\text{H}_2\text{O}$  है।
131. कैलोमेल का शासायनिक नाम मरक्यूलस क्लोराइड है।
132. विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन/कूलॉम है।
133. विटामिन E का शासायनिक नाम टोकोफेरॉनल है।
134. भारी जल ड्यूटीरियम ओक्साइड ( $\text{D}_2\text{O}$ ) है।
135. ट्रैकोना रोग अँख से शम्बन्धित रोग है।
136. हेपेटाइटिस-बी वायरस पीलिया रोग के लिए डिमेदार है।
137. एपीलेप्टी रोग का अम्बन्ध नाड़ी अंस्थान से है।
138. AB रक्त लम्ह वाला व्यक्ति A, B, AB तथा O रक्त लम्ह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण का अक्ता है।
139. चेचक के टीके की खोज एडवर्ड डेनर ने की थी।
140. दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें आयरन एवं कॉर्पर तत्वों की कमी होती है।
141. शैलिंग प्रतिशत द्वारा मूंगफली में दानों का प्रतिशत झात किया जाता है।
142. शानेन बकरी को विश्व की दूध की शनी नाम से श्री जाना जाता है।
143. हर्ता चालित चाश काटने की मशीन में फ्लाई छील ढलवां लोहे का बना होता है।
144. प्रति शौं ग्राम भैंस के दूध से 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।
145. मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण हिमोग्लोबिन है।
146. मनुष्य में गेलिट्रिक इथ आमाशय से उत्तरावित होता है।
147. द ऑरिजिन ऑफ लीशीज पुस्तक डॉर्विन ने लिखी थी।
148. प्रोटोकॉर की गति मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है।
149. डीटीपी का टीका बच्चों को टिट्जेस, डिएथीरिया तथा हूपिंग कफ से २क्षा के लिए लगाया जाता है।
150. वयरक मनुष्य में हृदय चक्र का अम्य ०.८ लैकेण्ट होता है।
151. मछलियों में श्वसन हेतु क्लोम झंग होता है।
152. वाट्सन व क्रिक को जीवविज्ञान में नोबल पुरस्कार डीएनए के डबल हैलीकल मॉडल की खोज के लिए दिया गया।
153. बैक्टीरिया की खोज एन्टोनी-वॉन-लुइजेन हॉक ने की थी।
154. विज्ञान की शाखा एग्रोस्टोलॉजी में धातु का अध्ययन किया जाता है।
155. मानव शरीर में विटामिन K का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है।
156. पीडियाट्रिक्स का अम्बन्ध बच्चों के शोरों से है।

157. हाइपोग्लाइसेमिया तक में ग्लूकोज की कमी से होता है।
158. हाइमोटीटर से आपेक्षिक आर्द्धता मापी जाती है।
159. हाइड्रोमीटर यंत्र से आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है।
160. शासायनिक दृष्टि से चीमी कार्बोहाइड्रेट (शुक्रोज) है।
161. पायशाइट खनिज को बेवकूफों का शोगा कहा जाता है।
162. एण्टीपायरेटिक द्वा बुखार कम करने के लिए ली जाती है।
163. मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है।
164. हाइपोकोण्ड्रिया अपने त्वार्थ्य के विषय में शासानाय मानसिक चिन्ता की बीमारी है।
165. नेत्रदान में रोगी में झाँख के कॉर्निया भाग का प्रतिरैपण किया जाता है।
166. पैलांग्रा रोग नियारिन की कमी के कारण होता है।
167. अन्धमा के तल से आकाश का काला दिखना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है।
168. खक्सा होने का कारण वायरस है।
169. शासान्य रिथितियों में हृदय से आगे वाले तक का 24 प्रतिशत भाग शुद्ध होता है।
170. नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कारोथल थे।
171. रुटाइल टाइटेनियम का अवृत्तक है।
172. लेड ऑक्शाइड का व्यापारिक नाम लिथार्ड है।
173. हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमीकल्स लिमिटेड कोलाबा (महाराष्ट्र) में स्थित है।
174. श्वेतगृही प्राणियों में तक का शब्द से अधिक तापमान क्हेल में होता है।
175. ऐडियो एक्टिवेटा की इकाई बेक्यूरेल है।
176. ध्वनि से शंबंधित विज्ञान एकोरिटक कहलाता है।
177. इलेक्ट्रॉन की विशम ऊर्जा 0.51 Mev होती है।
178. प्रदीपि घनत्व का मात्रक लक्षण (LUX) होता है।
179. बादल का हवा में तैरने का कारण वायु की श्यानता एवं कम घनत्व है।
180. जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण ए. आर्ड. औपेरिन ने प्रस्तुत किया।
181. इन्सुलिन की खोज एफ. जी. बेनिंग ने की थी।
182. कुपर फॉर्फेट उर्वरकों का शूत्र  $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$  है।
183. पानी का अधिकतम घनत्व  $4^\circ \text{C}$  पर होता है।
184. ड्रॉफ्टी की बीमारी के लिए आजजीमोब मिलावटी तेल उत्तरदायी है।
185. हड्डियों में फॉर्मफोरेट, कैल्शियम फॉर्फेट के रूप में पाया जाता है।
186. शोगार उपकरण छाता ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके शुमुद्र की गहराई मापी जाती है।
187. मूत्र में एल्युमिन आगे से वृक्क में गडबड होने की शम्भावना होती है।
188. मैनोमीटर से ग्रैंसों का दाब नापते हैं।
189. पाइरोडॉविंग विटामिन B<sub>6</sub> का शासायनिक नाम है।
190. चार अर्द्धशायुओं के पश्चात किसी ऐडियो एक्टिव पदार्थ का 1/6 भाग विघटित हह जाएगा।
191. शुष्कछिपाक विटामिन A की कमी के कारण होता है।
192. शोडियम शिलिकेट को शोडियम का वाटर ग्लास कहा जाता है।
193. चुम्बकीय दृष्टि से ऑक्सीजन अनुचुम्बकीय है।
194. रदरफोर्ड ने भौतिकी में प्रोटॉन की खोज की थी।
195. तक्त का थक्का हीमोफीलिया रोग में नहीं उमता।
196. डीएनए (DNA) केन्द्रक में उपस्थित हहता है।
197. आनुवांशिकता की भूमिका ग्रेगर डॉन मैण्डल ने निर्दिष्ट की थी।
198. एक परमाणु द्रव्यमान इकाई (1 AMU) को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर 931 MeV ऊर्जा मुक्त होती है।
199. पानी में हवा का बुलबुला छवतल लैंस की भौति कार्य करता है।
200. इलेक्ट्रॉन-वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है।
201. शाबुन के बुलबुले में रंग प्रकाश की घटना व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं।
202. गतिमान आवेश चुम्बकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है।
203. डायग्नोमाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था।
204. किसी तारे का रंग तारे के ताप का परिचायक होता है।
205. ऑर्डरनेटाइट चांदी का अवृत्तक है।
206. दूष का pH का मान 6.6 होता है।
207. मनुष्य के शरीर में पित यकृत में बनता है तथा गाल ब्लैंडर में एकत्रित होता है।
208. मानव शरीर की शब्दों छोटी माँसपेशी इंटेपिड्यस होती है।
209. हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है।
210. आयोडीन टिंचर आयोडीन का एल्कोहॉली विलयन होता है।
211. ऐडियो तरंगों वायमण्डल के आयनमण्डल से परावर्तित होती है।
212. ट्याटर का रंग पक्के पर क्रोमोप्लास्ट के कारण लाल हो जाता है।
213. पारिस्थितिकी जीव व पर्यावरण के शह-शब्दों से शब्दनिष्ठत है।
214. भारत में अन्तरिक्ष आयोग की स्थापना जून 1972 हुई।
215. रव्वपथम कृत्रिम गर्भांशन भारत में जून 1942 में प्रारम्भ किया गया।
216. आई शैट विकलांगों का कम्प्यूटर है।

217. पृथ्वी से पलायन वेग का मान 11.2 किमी/सैकण्ड होता है।
218. इन्ड्रधनुज उपर्युक्त, विक्षेपण, पूर्ण आनतरिक परावर्तन का उदाहरण है।
219. पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं, क्योंकि उनमें एन्थोसाइनिन पाया जाता है।
220. लैब का खाने योग्य भाग अक्सर थैलामर है।
221. मानव शरीर में एक मिनट में 72 बार हार्ट बीट्स होती है।
222. अवयं बिना बदले शासायनिक आभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को उद्योग कहते हैं।
223. फारेनहॉफ्ट पैमाने के अनुसार पानी का शामान्य क्वथनांक  $212^{\circ}\text{F}$  होता है।
224. अमान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु अमर्थानिक कहलाते हैं।
225. बोकारो एस्टील प्लाण्ट पूर्व शोक्यित संघ के शहरों से बना है।
226. अष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है।
227. अड्डबोफ्लाविन विटामिन-  $\text{B}_2$  है।
228. मधुमविख्यांयों के काटने पर फार्मिक अम्ल के कारण दर्द होता है।
229. अवैग अदिश शशि है।
230. हेमेटाइट औयस्ट का अयस्क है।
231. शुर्य में ऊर्जा का निर्माण जाग्रिकीय क्षम्लयन की प्रक्रिया से होता है।
232. अू-पर्पटी में शर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है।
233. ध्वनि का वेग अनुमानतः  $330 \text{ मी./सैकण्ड}$  होता है।
234. लर सी. वी. अमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था।
235. कम्प्यूटरों के इन्टीग्रेटेड कर्कियों के लिए चिप्स शादारणतया रिलिकॉन के बनाए जाते हैं।
236. मनुष्य शरीर की अवधि लम्बी हड्डी फीमर है।
237. ब्लू विट्रॉल के नाम से कॉपर क्लफेट को जाना जाता है।
238. पौधे के तने से हल्दी प्राप्त होती है।
239. होलोग्राफी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिकृप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने की तकनीक है।
240. टेशमाइशन नामक एण्टीबायोटिक स्ट्रैप्योकोकर्स रिमोक्स जीवाणु से प्राप्त होता है।
241. ध्वनि की चाल पर धाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
242. कॉर्टिक किरणों की खोज ए. मिलीकन ने की थी।
243. चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक और है।
244. ऊर्मन रिल्वर में ताँबा, मिक्रोल तथा डिंक होते हैं।
245. युम्बक झुकाव की अमान इथिति दशनि वाली ऐक्सा को आइसोक्लीनिक ऐक्सा कहते हैं।
246. पक्षियों की पूँछ हवा में उड़ते अमय अनुलन बनाए रखने के काम आती है।
247. कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉण्ड्रिया को कहते हैं।
248. घरों में बिजली अप्लाई के लिए तीन तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, ड्यूटल और अर्था इसी क्रम में तारों का रंग लाल, काला और हरा होता है।
249. तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारम्भ हाइड्रोजन व हिलियम से होता है।
250. कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का ओत और बैटरी होता है।
251. आकाश का अबसे अमर्किला रितारा शाइर्स है।
252. ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में हानि होती है।
253. नोबल गैरों किसी अन्य परमाणु से क्रिया नहीं करती क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं।
254. पानी में शाबुन घोलने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है।
255. पटाखों में लाल रंग अट्रांशियम की उपरिथिति के कारण होता है।
256. फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग क्रिया जाता है।
257. फलों का अद्ययन पोमोलॉजी में क्रिया जाता है।
258. अक्त कोष में एक ओडियम नाइट्रेट व उक्साट्रेट के साथ मिलाकर अखा जाता है।
259. प्रकाश में धूवण की घटना प्रकाश की तर्फ़ें दिछ करती है।
260. एक प्रकाश वर्ष में  $9.46 \times 10^{12}$  किमी. होते हैं।
261. हुक का नियम भौतिक विज्ञान से अन्विष्ट है।
262. डॉप्लर प्रभाव ध्वनि तथा प्रकाश से अन्विष्ट है।
263. मेण्डल का नियम अनुवांशिकता से अन्विष्ट है।
264. एस्टील पर डिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं।
265. यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र डायनो है।
266. शुक्रम कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन अवच्छन्द गति को ब्राउनियन गति कहते हैं।
267. विज्ञान की शाखा फोटोसीनिक्स से पौधों पर ध्वनि के प्रभाव का अद्ययन क्रिया जाता है।
268. क्रेटकोग्राफ यंत्र से पौधों की वृद्धि दर मापी जाती है।
269. प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलाकर बने होते हैं।
270. विटामिन C अम्लीय है।
271. बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्षणिक औवेश मापते हैं।
272. 'शॅट' का असाध्य रूप से उपयोग अग्नीष्ट यंत्र में क्रिया जाता है।

- |   |  |
|---|--|
| <p>273. कम्प्यूटर से शब्द अर्थ है - Common Business Oriented Language</p> <p>274. ग्रैंट वितरण का नियम ग्राहम ने प्रतिपादित किया था।</p> <p>275. खाने के लोडे का शासायनिक नाम लीडियम बार्ड कार्बोगेट है।</p> <p>276. केलिंग पैमाने पर लामान्य वायुमण्डलीय दाब पर पानी का क्वथनांक 373 K होता है।</p> <p>277. भारतीय मोर का जीव वैज्ञानिक नाम पेपो क्रिस्टेटस है।</p> <p>278. शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को एनीमिया नाम से पुकारा जाता है।</p> <p>279. लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाले बेंजामिन फ्रैकलिन अमरीकी वैज्ञानिक थे।</p> <p>280. 98.6°F तापक्रम का मान शेंटीग्रेड इकाई में 37°C होता है।</p> <p>281. विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चाँदी कैथोड पर जमा होती है, एक फैरोडे कहलाती है।</p> <p>282. पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग विधि से ज्ञात करते हैं।</p> <p>283. नागाराकी पर गिराए गए परमाणु बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था।</p> <p>284. हर्शे एवं चेज के प्रयोग से यह शाबित हुआ कि डी. एन. ए. एक आनुवांशिक पदार्थ है।</p> <p>285. शिरके में एक्सीटिक अम्ल होता है।</p> <p>286. हेमेटाइट खनिज से लोहा धातु प्राप्त होता है।</p> <p>287. यूरिया कार्बनिक यौगिक शर्वप्रथम शंखलेषित किया गया था।</p> <p>288. लीडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक हूफिउटेरी थे।</p> <p>289. केवराटोमलेशिया या जीरोफथेल्मिया ऐग विटामिन A की कमी का लक्षण है।</p> <p>290. टमाटर के फलों का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है।</p> <p>291. क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हैलोजन परिवार के तत्व हैं।</p> <p>292. बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है।</p> <p>293. शंकट झवनथा में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए एड्रीनल ग्रॉथ होमोनोट्रोफिक त्रावण तैयार करता है।</p> <p>294. मादा एनाफलीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग मैक्रिला और मैरिडबल होते हैं।</p> <p>295. परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है।</p> | <p>296. गोताखोर शमुद्र के क्षेत्र साँस लेने के लिए हिलियम और ऑक्सीजन गैरिंग के मिश्रण का उपयोग करते हैं।</p> <p>297. जल/ऐक्प्ट शक्ति का मात्रक है।</p> <p>298. फेरेल का नियम हवा की दिशा के भौतिक कार्य से शब्दनिष्ठत है।</p> <p>299. 'फोबोस' एवं 'डोयोस' मंगल ग्रह के उपग्रह हैं।</p> <p>300. इंडोक्शन देते कमय प्रयुक्त जल आवश्यक विधि छारा तैयार होता है।</p> <p>301. गंधक के साथ टबर को गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं।</p> <p>302. बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया का परजीवी वाइरस है।</p> <p>303. रेडियो एक्टिवेटा में बीटा किरणें ऋणावेशित होती हैं।</p> <p>304. काँच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है।</p> <p>305. शुद्ध लोगा 24 कैरेट का होता है।</p> <p>306. किसी चालक के शिरों के बीच विभवान्तर उसमें बहने वाली धारा के अमानुपाती होता है - ओम का नियम</p> <p>307. श्टार्च की माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एन्जाइम एमाइलेज है।</p> <p>308. परमाणु घड़ी पीजोइलेक्ट्रिक प्रभाव के अन्तर्गत कार्य करती है।</p> <p>309. प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है यह शिल्पान्तर आइनस्टीन ने प्रतिपादित किया था।</p> <p>310. आग लगाने वाले नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला मुख्य पदार्थ नेपथेनेट पामीटेट है।</p> <p>311. हवाई जहाज को बनाने में कार्बन फायबर का प्रयोग किया जाता है।</p> <p>312. जल के प्रवाह में बर्नौली का नियम लागू होता है।</p> <p>313. वायु में ध्वनि का वेग आर्द्धता बढ़ जाने की झवनथा में बढ़ जाता है।</p> <p>314. आँखों में लाइसोजाइम एन्जाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं।</p> <p>315. परमाणु रियेक्टर तथा परमाणुबम में मूल अन्तर - परमाणुरियेक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में अभियंत्रित होती है।</p> <p>316. किसी वस्तु का वेग दोगुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाती है।</p> <p>317. घर्षण की कमी के कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है।</p> <p>318. झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर उत्कीप बल नियत रहता है।</p> <p>319. बिजली के बल्ब में फिलार्मेट से काँच तक ऊर्जा विकिरण विधि से लंबाइत होती है।</p> <p>320. अगर वायुमण्डल न होता, तो दिन की लम्बाई कम हो जाती।</p> |
|---|--|

कम्प्यूटर

## कंप्यूटर

- डॉ. डगलस इंजेलबार्ट (Dr.Douglas Engelbart) ने 1964 मात्रा का आविष्कार किया।
- प्रथम वेबशाइट के निर्माण के श्रेय टिम बर्नर्स ली (Tim Berners Lee) को है। इन्हें World Wide Web का संस्थापक कहा जाता है।
- बिल गेट्स (Bill Gates) तथा पाल एलेन (Paul Allen) ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना की।
- बिल गेट्स प्रसिद्ध पुस्तक "The Road Ahead" 1995 में लिखी गई वर्तमान में वे "Bill and Melinda Gates Foundation" द्वारा शामाजिक कार्यों में लगे हैं।
- भारत के शबीर भाटिया (Sabeer Bhatia) ने फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल (Hotmail) को जन्म दिया।
- ब्लूटूथ एक बेतार तकनीक (Wireless Technology) है जिसके द्वारा मोबाइल फोन के ज़रिये कम दूरी में कंप्यूटर और विभिन्न उपकरणों को जोड़ा जाता है।
- बैंकों में एटीएम (Automatic Teller Machine) वैन (WAN) का एक उदाहरण है।
- WiFi का अर्थ है wireless Fidelity इसका प्रयोग बेतार तकनीक द्वारा कंप्यूटर के द्वे उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है।
- WAP (Wireless Access Point) एक युक्ति है जो विभिन्न संचार माध्यमों को जोड़कर एक बेतार नेटवर्क बनाता है।
- कंप्यूटर के Standby Mode में मॉनिटर तथा हार्ड डिस्क ऑफ हो जाता है ताकि कम ऊर्जा खपत हो। किसी भी बटन को ढांचे या मात्रा किलक करने से कंप्यूटर Standby Mode से बाहर आ जाता है।
- ऑप्टिकल माउस (Optical Mouse) में माउस पैड की ज़खरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें कोई घुमने वाला भाग नहीं होता।
- Hyper Text एक डॉक्यूमेंट है जो उस वेब पेज को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ता है।
- Blog शब्द Weblog से बना है। Blog किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित वेब शाइट है जहां वह अपने विचार, अनुभव या जानकारी इत्यादि संकेत करता है। इस वेब शाइट को पढ़ने वाले अन्य व्यक्ति भी इस विषय पर अपनी टिप्पणी दे सकते हैं।
- Beta Release किसी शॉफ्टवेयर या तकनीक की उपयोगिता को परखने के लिए निर्माण के दौरान उसे बाजार में जारी करने को कहा जाता है।
- पॉप अप (Pop-up) वेब ब्राउज़िंग के दौरान इव्यं खुलने वाला विज्ञापन का विण्डो है।
- की.बोर्ड की संस्थाना के निर्माण के श्रेय क्रिस्टोफर लॉथम शोल्स (Christopher Latham Sholes) को कहा जाता है।
- डिजिटल कॉम्पैक्ट डिस्क (DCD) का आविष्कार 1965 में जैम्स रसेल (James Russell) ने किया।
- बॉब नोयी (Bob Noyce) तथा गार्डन मुरे (Gordon Moore) ने समिलित अप से इंटेल (Intel) नामक कम्पनी की स्थापना की।
- मोटोरोला (Motorola) के डॉ. मार्टिन कूपर (Dr. Martin Cooper) ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया।

- जीएसएम (GSM-Global System For Mobile Communication) मोबाइल फोन के लिए प्रयुक्त एक लोकप्रिय मानक है।
- दीडीएमए (CDMA-Code Division Multiple Access) मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने की व्यवस्था है।
- कैलकुलेटर तथा कम्प्यूटर में अंतर यह है कि कम्प्यूटर को एक साथ कई निर्देश या निर्देशों का समूह दिया जा सकता है तथा यह एक साथ कई कार्य कर सकता है। इसके विपरीत कैलकुलेटर को एक साथ एक ही निर्देश दिया जा सकता है।
- प्रथम व्यावशाविक इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन (Fair Child Semiconductor Corporation) ने 1961 में किया।
- मॉनीटर का आकार मॉनीटर के विकर्ण की (Diagonal) लम्बाई में मापा जाता है।
- फ्लोपी डिस्क का आविष्कार IBM के वैज्ञानिक एलान शुगार्ट (Alan Shugart) ने 1971 में किया।
- मानव मर्टिष्क और कंप्यूटर में अंतर यह है कि कंप्यूटर की स्वयं की शोचने की क्षमता नहीं होती।
- होम थियेटर एक पर्सनल कंप्यूटर है जिसका प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है। इसमें वीडियो प्लेयर, आडियो/वीडियो रिकॉर्डर, टेलीविजन गेम्स, इंटरनेट डैशी और शुभिधाएं रहती हैं।
- कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का तात्पर्य कंप्यूटर में प्रयुक्त आपरेटिंग सिस्टम से है जो आन्य प्रोग्राम के क्रियान्वन के लिए आधार तैयार करता है। एक प्लेटफॉर्म में चलने वाले प्रोग्राम शामान्यतः दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं चलते हैं।
- अमेरिका के विंटेन कर्फ (Vinten Cerf) को इंटरनेट का जन्मदाता (Father of the Internet) कहा जाता है।
- नेटिकेट (Netiquette-Net+ etiquette) इंटरनेट प्रयोग के समय किये जाने वाले अपेक्षित व्यवहारों और नियमों का समूह है।
- इन्टरनेट का संचालन किसी संस्था या सरकार या प्रशासन नियंत्रण से मुक्त है।
- जीपीआरएस (GPRS-General Pocket Radio Service) वायरलेस द्वारा मोबाइल फोन से इंटरनेट शुभिधा के प्रयोग की तकनीक है।
- हाइपर टेक्स्ट (Hyper Text) एक व्यवस्था है जिसके तहत टेक्स्ट, ऐक्वाचित्र व प्रोग्राम आदि को आपस में लिंक किया जा सकता है। इसका विकास टेड नेल्सन (Ted Nelson) ने 1960 में किया।
- WAP-Wireless Application Protocol मोबाइल फोन द्वारा इंटरनेट के इन्टरेमाल के दौरान प्रयोग किये जाने वाले नियमों का समूह है।
- इंटरनेट फोन कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग कर टेलीफोन कॉल स्थापित करने की प्रक्रिया है।
- इंटरनेट तथा कंप्यूटर का प्रयोग कर किये गये अवैध कार्य, डैशी- शुरकित फाइलों को देखना और नष्ट करना, वेब पेज में परिवर्तन करना, क्रेडिट कार्ड का गलत इन्टरेमाल करना, वायरस जारी करना आदि साइबर (Cyber Crime) कहलाता है।
- इकॉन (ICANN-Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) इंटरनेट पर प्रत्येक कम्प्यूटर के लिए एक विशेष पता ढेने के उद्देश दो 1998 में गठित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।

- इमोटिकॉन (Emotion-emotion + icon) एक या अधिक शंकेतों का समुच्चय है जिसके द्वारा इंटरेट पर किसी विशेष भावना को व्यक्त किया जाता है।  
जैसे:- का मतलब मुश्कुराता चेहरा है।  
मतलब दुखी चेहरा है।
- एक्स्ट्रानेट (Extranet) एक व्यक्तिगत नेटवर्क है जो व्यवसाय के लिए इंटरेट तकनीक और शार्वजनिक दोनों व्यवस्था का प्रयोग करता है।
- हैकर (Hacker) एक व्यक्ति है जो इंटरेट पर इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था को भेदकर मनोरंजन या उत्सुकतावश गुप्त शूयनाये प्राप्त करता है।
- ब्रिटेन के एलान टूरिंग (Alan Turing) शर्वप्रथम कृत्रिम बुद्धिमता या (Artificial Intelligence) की विचारधारा देखी। पर इस क्षेत्र में उपर्युक्त योगदान के कारण जॉन मैकार्थी (John McCarthy) की कृत्रिम बुद्धिमता (Father of Artificial Intelligence) का जनक कहा जाता है।
- डेक्टॉप पब्लिशिंग (DTP) का विकास मैकिन्टॉश (Macintosh) कंपनी द्वारा किया गया।
- इंटरेट पर मुफ्त में उपलब्ध विश्व के शब्दों बड़े इनशाकलोपीडिया (Wikipedia) की स्थापना जिमी वेल्स (Jimmy Wales) ने किया।
- बैगल्सुर इथित इंफोरियंस टेक्नोलोजी (Infosys Technology) का प्रारंभ एन. नारायणमूर्ति द्वारा 1981 में किया गया।
- वर्तमान में विश्व का शब्दों तेज़ शुपर कम्प्यूटर IBM का रोड रनर (Road runner) है जो 1000 ट्रिलियन गणनाएं प्रति सेकेण्ड कर सकता है।
- भारत का शब्दों तेज़ शुपर कम्प्यूटर एका (Eka) है जिसका विकास टाटा ग्रुप के पुणे इथित शीआएल (Computational Research Laboratory) द्वारा किया गया है। यह 117.9 ट्रिलियन गणनाएं प्रति सेकेण्ड कर सकता है।
- विलियन हिमिगबौथम (William Higgin Botham) ने 1958 में कंप्यूटर के प्रथम वीडियो गेम का निर्माण किया।
- माया-II (Maya II) एक DNA कंप्यूटर है जिसमें शिलिकॉन चिप की जगह DNA धागे का प्रयोग किया गया है।
- माया (Maya) एक शक्तिशाली त्रिआयामी शॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग चलचित्रों और विडियो गेम में विशेष प्रभाव डालने के लिए किया जाता है।
- एलान टूरिंग (Alan Turing) को आधुनिक कम्प्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है।

### कम्प्यूटर शामान्य ज्ञान Part-1

1. सेविंग की प्रक्रिया है- मेमोरी से एटोरेज माध्यम तक दस्तावेज़ कॉपी करना।
2. डाइरेक्टरी के अंदर डाइरेक्टरी को कहा जाता है- शब्द डाइरेक्टरी।
3. C.A.D. का तात्पर्य है- कंप्यूटर एडेड डिजाइन।
4. ऑरेक्ल है - डाटाबेस शॉफ्टवेयर।
5. ड्रॉमेबल का कार्य है- ड्रॉमेबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना।
6. भारत में शर्वप्रथम डिल्वार्ड ढेने वाला कंप्यूटर वाइट्स है- शीब्रेन।
7. उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है, जिसमें प्रत्येक दोनों में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं- मेश।
8. वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है- टर्मिनल।

9. विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है- ARPANET
10. लिनक्स एक उदाहरण है- औपन शोर्क सॉफ्टवेयर का।
11. पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहताता है- रिबूटिंग।
12. सॉफ्टवेयर कोड में गुटिया ढंगे की प्रक्रिया को कहा जाता है- डिबगिंग।
13. शीपीयू का वह भाग जो अन्य कभी कंप्यूटर कैपोनेट की गतिविधियों को कोन्क्रिट करता है- कंट्रोल यूनिट
14. कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं- इपुट।
15. कंप्यूटर में डेटा किसी कहा जाता है- चिन्ह व अंख्यात्मक शून्या को।
16. A.L.U. का पूरा नाम होता है- Arithmetic Logical Unit
17. कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है- शी.पी.यू.
18. कंप्यूटर के कभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है- कंट्रोल यूनिट।
19. माइक्रोप्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे कहा जाता है- माइक्रोचिप।
20. ALU परिचालन क्षमता है- अर्थमिटिक।
21. एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इनफार्मेशन में परिवर्तित करता है- प्रोसेसर
22. CRAY वया है- सुपर कंप्यूटर।
23. टेलीप्रोसेसिंग तथा टाइमशेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ- दृतीय पीढ़ी।
24. वह उपकरण जो हैंडहेल्ड सॉफ्टवेयर प्रणाली का इस्तेमाल करता है- पीडीए।
25. कंप्यूटर किनें प्रकार के होते हैं- दो प्रकार के।
26. प्वाइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है- माउस को।
27. ट्रैक बाल उदाहरण है- पॉइंटिंग डिवाइस।
28. सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी वया है- प्रिंटेड आउटपुट।
29. लैकडरी स्टोरेज मीडिया से हार्डडिक्स में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं- इस्टोलेशन।
30. किस मेमोरी में इस्खा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है- ऐम
31. डीवीडी उदाहरण है. सॉफ्टिकल डिस्क
32. CD-RW का पूरा नाम है- Compact Disc Rewritable
33. शून्याएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापर लेन का कम कैन करता है- डाटा बेस
34. कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का रांकिंप अप क्या है- यू.पी.एस.
35. मदरबोर्ड में वया रहता है जो मदरबोर्ड पर शीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है- रिस्टम बस
36. कंप्यूटर यूजर की वैष्ठता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है- Authentication
37. मॉड्यूलेटर का सामान्य नम है- डी.मीडिम
38. पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं- वार्म ब्रूटिंग
39. HTML ड्रॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है- टैक्सट एडिटर की
40. कंप्यूटर में अधिकाश प्रोसेसिंग होती है- शीपीयू में
41. वेबशाइट कलेक्शन है- वेब पेजेस का
42. किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूर नहीं होती है- मर्शिन लैंग्वेज
43. एवरेल एप्प्लीकेशन का एवरेंटेशन है- .xlsx
44. फाइल एवरेंटेशन किसलिए इस्तेमाल होते हैं- फाइल टाइप को आइडेंटिफार्ड करने के लिए

45. एकरोल वर्कबुक शंगह हैं- वर्कशीट का
46. इसे होते हैं- मेल पते के दो भाग कौन- प्रयोक्ता का नाम और डीमेन नंबर
47. कैड शब्द का शंबंध कंप्यूटर में किसे हैं- डिजाइन ट्रै
48. भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम वया है- शिर्षक
49. कंप्यूटर प्रोग्रामों को हार्ड लेवल प्रोग्रामिंग लैबेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को कहा जाता है- सोर्स कोड
50. C, BASIC, COBOL और JAVA जिन भाषा के उदाहरण हैं, उसे कहते हैं- हार्ड लेवल- Language
51. ASCII का पूर्ण रूप होता है- American Standard Code for Information Interchange
52. कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है- चालर्ट बेवेज
53. शर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई- 1946 में
54. कंप्यूटर के शंचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से शंबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है- सॉफ्टवेयर
55. कंप्यूटर के महितष्क को कहा जाता है- सी. पी. यू.
56. इंटीग्रेटेड शर्किट चिप का विकास किसने किया है- डै. एस. किल्बी ने
57. इंटीग्रेटेड शर्किट चिप (I.C.) पर किस पदार्थ की परत होती है- शिलिकॉन
58. चुम्बकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है- आयरन ऑक्साइट
59. कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं- बिट
60. एटोरज माध्यम की क्षमता इकाई है- बाइट
61. एम एस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है- GUI
62. वह कौनसा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों का जोड़ता है- गेटवे
63. कंप्यूटर्स विशिष्टता किसके साथ कार्य करके, आंकड़ों की शुद्धि में प्रोसेसिंग करते हैं- नंबर्स
64. निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है- ROM
65. एक बाइट का कलेक्शन है- आठ बिट्स
66. CD-ROM किसका उदाहरण है- इनपुट डिवाइस का
67. कम्पाइलर है- स्त्रोत प्रोग्राम का ऑडेक्ट कोड में अनुवादक
68. वोलेटिलिटी किसकी प्रोपर्टी है- ऐम
69. जावा उदाहण है- उच्चस्तरीय भाषा (लैबेज)
70. वह हार्डवेयर डिवाइस जिस आमतौर पर कंप्यूटर महितष्क कहा जाता है, वह है- लीपीयू
71. जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है, तो उसे कहा जाता है- प्रोसेसिंग
72. वह इनपुट डिवाइस, जो ऊपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है- बारकोड रीडर
73. एक कंप्यूटर प्रोग्राम- अनुदेशों का एक ऐसा शेट है, जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में, कंप्यूटर की समर्थ बनाता है।
74. वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर्स कहते थे, प्रायः कॉम्प्लेक्शन इनवेंटरी तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़े होते हैं- प्वाइंट-ऑफ-सेल
75. वायरेस, ट्रॉजन होर्सेस तथा वर्स्टी-कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में लक्ष्य होते हैं।
76. कंप्यूटर्स डाटा एकत्र करते हैं जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं- इनपुट की
77. वे कपोनेंट्स जो आंकड़ों का शंशाधन करते हैं, वे रिप्रिंट होते हैं- प्रणाली यूनिट
78. सॉफ्टवेयर का अर्थ है- प्रोग्राम
79. दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की है- Ctrl + P